

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर, 452013

No. 14/05/2020-जीएसी/676

मार्च 31, 2020

राराप्रौके चिकित्सा केन्द्र (आरएमसी) के सम्बन्ध में कार्यालयीन आदेश

कोविड-19 वायरस को फैलने से रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्र व्यापी तालाबंदी एवं धारा-144 लागू होने के उपरांत राराप्रौके चिकित्सा केन्द्र (आरएमसी) की कार्य पद्धति में तत्काल प्रभाव से निम्नांकित परिवर्तन किये जा रहे हैं :

1. राराप्रौके चिकित्सा केन्द्र में सोमवार से शनिवार एवं राजपत्रित अवकाश दिवसों पर 0800 से 1600 के समय अनुसार न्यूनतम उपलब्ध डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सों एवं सहायक कर्मियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। बाह्य रोगी विभाग सुबह 0800 बजे से 1300 बजे तक एवं दोपहर 1400 बजे से 1530 बजे तक उपलब्ध होगा। **बाह्य रोगी विभाग केवल दूरभाष परामर्श (टेलीफोनिक कंसल्टेशन) के रूप में ही उपलब्ध होगा। व्यक्तिगत (इन पर्सन) परामर्श केवल ड्यूटी डॉक्टर से पूर्व में ही फ़ोन पर लिए गए समय एवं उनकी अनुमति के पश्चात् ही संभव होगा।** कार्य समय एवं कार्य समय के पश्चात् चिकित्सकीय परामर्श हेतु संपर्क करने के लिए विवरण अनुलग्नक ए में दिए गए हैं।
2. राराप्रौके चिकित्सा केन्द्र के चिकित्सकों द्वारा उपयोग हेतु एम्बुलेंस सुविधा हर समय 24x7 आधार पर उपलब्ध रहेगी।
3. डॉ अनिल रावत, निदेशक, टीडीएसजी एवं अध्यक्ष, राराप्रौके चिकित्सा केन्द्र परामर्श समिति (एसीआरएमसी) के रूप में आरएमसी के पूर्ण प्रभारी होंगे एवं समूह निदेशक की सभी प्रत्यायोजित शक्तियों का, अध्यक्ष, एसीआरएमसी के रूप में उपयोग कर सकेंगे।
4. डॉ (श्रीमती) एस . भवानी, वैज्ञानिक अधिकारी-ई, चिकित्सा अधिकारी एवं डॉ. राहुल वर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी-डी, चिकित्सा अधिकारी को पूर्व आर्डर संख्या D -04 -2017 दिनांक सितम्बर 5, 2017 के अंतर्गत, इंचार्ज, आरएमसी (सीएमओ) की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं एवं वे डॉ . जाहिद बी मिर्ज़ा के अतिरिक्त, सीएमओ के रूप में कार्य करेंगे। सीएमओ के रूप में पदांकित राराप्रौके चिकित्सा केन्द्र के सभी चिकित्सक, अध्यक्ष, एसीआरएमसी को रिपोर्ट करेंगे।

अध्यक्ष, एसीआरएमसी, न्यूनतम कर्मियों के साथ कर्तव्य सूचि (ड्यूटी रोस्टर) बनाने का कार्य सुनिश्चित करेंगे। वे आरएमसी कर्मियों द्वारा कोविड-19 सम्बंधित या इस के समान मामलों को, कार्य समय एवं कार्य समय के पश्चात्, जिसमें रविवार भी सम्मिलित है, संभालने हेतु आवश्यक प्रक्रिया उपलब्ध करवाएंगे।

अध्यक्ष, एसीआरएमसी, कोविड-19 सन्देहयुक्त सीएचएसएस लाभार्थियों एवं आरएमसी चिकित्सकों एवं कर्मियों द्वारा पालन करने हेतु सभी आवश्यक दिशा निर्देशों, प्रक्रिया एवं क्रियाविधि के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे।

अध्यक्ष, एसीआरएमसी, राराप्रप्रौके चिकित्सा केन्द्र द्वारा कोविड-19 सम्बंधित सभी मामलों में किये गए किसी भी प्रकार कार्य के अभिलेख (रिकॉर्ड), उनकी सम्पूर्ण सूचना सहित, बनवाने का कार्य सुनिश्चित करेंगे। इन सभी रिकॉर्ड की समीक्षा अध्यक्ष, एसीआरएमसी द्वारा प्रतिदिन की जाएगी एवं उनकी प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को सूचना हेतु प्रेषित की जाएगी।

अध्यक्ष, एसीआरएमसी, ताला बंदी के समय में, सभी दवाइयों, सुरक्षात्मक गियर एवं आवश्यकताओं के पूर्वानुमान अनुसार इमरजेंसी क्रय हेतु आवश्यक प्रयत्न कर उनकी समय पर उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे।

अध्यक्ष, एसीआरएमसी, परामर्शदाताओं (कंसलटेंट) का मूल्यांकन कर उनकी सेवाएँ, कार्य अनुरूप उपलब्ध करवाने हेतु व्यवस्था करेंगे।

अध्यक्ष, एसीआरएमसी एवं/अथवा कोई भी इंचार्ज राराप्रप्रौके चिकित्सा केन्द्र, उन परिस्थितियों में जिनमें विशिष्ट निर्णयों की आवश्यकता हो एवं/अथवा आरएमसी के कार्यकलापों सम्बन्धी अपरिहार्य मामलों के निपटान हेतु अधोहस्ताक्षरी को संपर्क कर सकते हैं।

यह आदेश अगले आदेशों तक लागु रहेगा।

(देवाशीष दास)
निदेशक

संलग्नक ; उपरोक्त अनुसार

प्रेषण
राराप्रप्रौके चिकित्सा केन्द्र, के सभी कर्मचारियों हेतु
मेल आल/व्हाट्स एप इत्यादि

अनुलग्नक -ए

चिकित्सा अधिकारी	पद	ईमेल	ड्यूटी के दौरान फ़ोन नंबर	कार्य समय के पश्चात् मोबाइल (केवल इमरजेंसी)
डॉ. जाहिद बेग मिर्ज़ा, इंचार्ज आरएँमसी	वैज्ञानिक अधिकारी ई	zimirza	2488222	9826667989
डॉ. (श्रीमती) एस भवानी, इंचार्ज आरएँमसी	वैज्ञानिक अधिकारी ई	bhavani	2487222	9039519267
डॉ. राहुल वर्मा, इंचार्ज आरएँमसी	वैज्ञानिक अधिकारी डी	rahulv	2487042	9713168569
डॉ. (श्रीमती) सविता कुमावत	वैज्ञानिक अधिकारी सी	savita	2487154	9977877222
डॉ. (श्रीमती) मनीषा चौहान	वैज्ञानिक अधिकारी सी	manishac	2487057	7581082005

राराप्रप्रौके चिकित्सा केन्द्र के महत्वपूर्ण दूरभाष नंबर

कार्य / स्थान	संपर्क फ़ोन नंबर
पंजीयन काउंटर	2487029
फार्मासिस्ट (दवा वितरण)	2487054
ड्रेसिंग कक्ष	2487043
एम्बुलेंस (कार्य समय के दौरान)	2487029,2487043
एम्बुलेंस (कार्य समय के पश्चात्)	2487454,2488666